

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया में 26 अक्टूबर 1 नवम्बर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 26 अक्टूबर 1 नवम्बर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW) मनाया जिसका विषय 'स्वतंत्र भारत @ 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता' था। कुलपति प्रो. नजमा अख्तर एवं कुलसचिव डॉ. नाजिम हुसैन अल जाफरी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों, विभागों एवं केंद्रों द्वारा इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

1. कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग, जामिया ने अध्यक्ष, प्रो बशीर आलम की देखरेख में "सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और इसे रोकने के लिए अधिनियम" पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार द्वारा एक ऑनलाइन विशेष व्याख्यान का तथा 30 अक्टूबर 2021 शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक शपथ समारोह आयोजन किया।

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और इसे रोकने के लिए मौजूदा अधिनियमों के बारे में ज्ञानवर्धक व्याख्यान के बाद, प्रश्नोत्तर सत्र में, अधिवक्ता सुनील कुमार के मार्गदर्शन में सभी प्रतिभागियों द्वारा एक सत्यनिष्ठा शपथ ली गई। सत्र का समापन डॉ. मुमताज अहमद द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

2. पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग, जामिया ने अध्यक्ष डॉ सारा हुसैन एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉ नुसरत यास्मीन की देखरेख में "भ्रष्टाचार श्रृंखला को तोड़ो" विषय पर एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इन आयोजनों में छात्रों, संकाय सदस्यों और प्रशासनिक स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

'स्वतंत्र भारत @ 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता' पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सतर्कता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना और भ्रष्टाचार की श्रृंखला को तोड़ना था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन को चिह्नित करने के लिए 29 अक्टूबर 2021 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां 'भ्रष्टाचार की श्रृंखला को तोड़ें' विषय के साथ विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी, स्लोगन लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, केंद्रों और संकायों के छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की घोषणा करने से पहले, सभी दर्शकों और प्रतिभागियों के बीच केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बारे में जागरूकता प्रसार के लिए एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी।

3. प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग के सब्जेक्ट एसोसिएशन ने विभागाध्यक्ष डॉ. शिखा कपूर की देखरेख में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में त्रिभाषी स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का विषय "स्वतंत्र भारत @ 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" था। प्रतियोगिता में विभाग के ग्यारह शोधार्थियों और छात्रों ने भाग लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों तथा सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए 27 अक्टूबर, 2021 को विभाग में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता का संचालन विभाग की संकाय सदस्य डॉ. नसरा शबनम और डॉ. अनवरा हाशमी ने किया।

4. विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल विभाग के चीफ प्रॉक्टर प्रो वसीम अहमद खान की देखरेख में डॉ मोहम्मद असद मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर, विधि संकाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा 27 अक्टूबर, 2021 को "इफेक्टिव मिजर्स टू कंट्रोल एंड कॉन्वैट करप्शन" विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए, प्रो. एजाज मसीह, माननीय मुख्य सतर्कता अधिकारी, जामिया एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है जिसके कारण राष्ट्र का विकास रुक जाता है। सीवीओ ने लोगों को अधिक सतर्क रहने और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अपनी भूमिका निभाने की सलाह दी।

मुख्य वक्तव्य में डॉ. मो. असद मलिक ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इतिहास और कानून में उपलब्ध उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों को इस उद्देश्य के लिए कानूनी ढांचे में उपलब्ध उपकरणों के उपयोग के बारे में भी बताया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर, 2021 को कुलपति प्रो नजमा अख्तर द्वारा रजिस्ट्रार डॉ नाजिम हुसैन अल जाफरी एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) प्रो. एजाज मसीह की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के सदस्यों

को कुलपति कार्यालय के लॉन में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाए जाने के साथ शुरू किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया गया।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया